



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1934 (श10)

(सं0 पटना 288) पटना, बृहस्पतिवार, 28 जून 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

28 जून 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-02/2011 खंड /9029—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 8109, दिनांक 24.05.2012 द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के रक्सौल मत्स्यजीवी सहयोग समिति सहित अन्य मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था।

(2) इस बीच मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, रक्सौल की मतदाता सूची के संबंध में गंभीर अनियमितता की शिकायतें प्राधिकार को प्राप्त हुई कि प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण ने दिनांक 23.05.2012 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद दिनांक 10.06.2012 की तिथि में उनके द्वारा 1650 अतिरिक्त सदस्यों का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ दिया है। यह प्रथम दृष्टया प्राधिकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल है। प्राप्त आपत्तियों के आलोक में उक्त मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मतदाता सूची की जांच की गयी और यह पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, रक्सौल ने दिनांक 23.05.2012 को कुल 1883 मतदाताओं की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया। उक्त सूची का प्रत्येक पृष्ठ निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पाया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य सूची भी निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 10.06.2012 की तिथि में हस्ताक्षरित थे। स्पष्टतः निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि यानि 23.05.2012 के बाद दिनांक 10.06.2012 को अनियमित तरीके से 1650 अतिरिक्त सदस्यों का नाम जोड़ा। जाँच में यह भी पाया गया कि संबंधित 1650 व्यक्तियों द्वारा जो प्रपत्र-3 के साथ रसीद संलग्न किया गया है, उनकी जाँच निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नहीं की गयी है और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-3 में कोई आदेश अंकित नहीं है कि किन कारणों से संबंधित सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाय। प्रपत्र-3 के साथ संलग्न रसीद के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वे किसी स्वाबलम्बी समिति से संबंधित हैं, जिनके अस्तित्व संदेह के घेरे में है या संविलियन के समय यह स्वाबलम्बी समिति अस्तित्व में नहीं था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिनांक 09.05.2012 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए इन्हें पर्याप्त अवसर दिये गये थे लेकिन आपत्ति के लिए निर्धारित अवधि में संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रखंड विकास

पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी को कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 23.05.2012 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के काफी बाद दिनांक 10.06.2012 की तिथि में 1650 आवेदन पत्र छद्म आधार पर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये जिसका उद्देश्य स्पष्टतः निर्वाचन कार्य को प्रदूषित करना था। भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से पूरे घटनाक्रम की अलग से छानबीन की जायेगी।

(3) वर्णित स्थिति में प्राधिकार द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रक्सौल द्वारा दिनांक 10.06.2012 की तिथि में हस्ताक्षरित मतदाता सूची को एतद्वारा रद्द किया जाता है। उक्त मत्स्यजीवी सहयोग समिति का निर्वाचन विहित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 23.05.2012 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ही सम्पन्न किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त आलोक में प्राधिकार द्वारा यह महसूस किया गया कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण के सही मतदाताओं को ही निर्वाचन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया जाय। उक्त परिप्रेक्ष्य में मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण के निर्वाचन कार्यक्रम को निम्नवत् पुनर्निर्धारित किया जाता है :-

(i)	अतिरिक्त नामांकन की तिथि	-	30.06.2012 (शनिवार) 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि	-	02.07.2012 (सोमवार) 11.00 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	-	03.07.2012 (मंगलवार)
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	23.07.2012 (सोमवार)
(v)	मतगणना	-	23.07.2012 की संध्या/ 24.07.2012 (मंगलवार)

(5) उपर्युक्त हद तक बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 8109 दिनांक 24.05.2012 को संशोधित किया जाता है।

(6) जिन उम्मीदवारों द्वारा पूर्व में नामांकन दाखिल किया गया है, उन्हें पुनः नामांकन पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में प्राप्त नामांकन पत्रों सहित सभी नामांकन पत्रों को संवीक्षा में शामिल किया जायेगा।

(7) नामांकन/ संवीक्षा के लिए उसी मतदाता सूची का उपयोग किया जायेगा जिसका विधिवत् प्रकाशन दिनांक 23.05.2012 को किया गया था और जिसकी एक मूल प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी के पास उपलब्ध है।

(8) प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, रक्सौल के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, रक्सौल को निर्वाचन कार्य से मुक्त किया जाता है तथा अंचलाधिकारी, रक्सौल को उक्त समिति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(9) नामांकन एवं संवीक्षा की पूरी कार्रवाई की विडियोग्राफी करायी जायेगी।

(10) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन का संचालन प्राधिकार के पत्र संख्या 8807 दिनांक 11.10.2011, जो पूर्व में ही उपलब्ध करायी जा चुकी है, में दिये गये अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

आदेश से,

एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 288-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>